

Date: 20.05.2019

LATL:CS:BM:2019-20

BSE Limited
Ist Floor, Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai- 400 001

The National Stock Exchange of India Limited

Listing Department

Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai- 400051

Company Code: 532796

Company Code: LUMAXTECH

Sub: Newspaper cutting of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2019.

Sir/Ma'am,

Please find enclosed copies of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2019 published in the Newspapers on 19th May 2019 viz. the Financial Express (English- All Edition) and Jansatta (Hindi- Delhi Edition).

The published copies of aforesaid results will also be made available on the website of the Company at www.lumaxautotech.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED


ANIL TYAGI

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

M.NO.: A-16825

Encl.: as above





Lumax Auto Technologies Limited

Regd. Office: 2st Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046; Website: www.lumaxautotech.com; Tel: +91 11 49857832 Email: shares@lumaxmail.com, CIN: L31909DL1981PLC349793



STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ In Lacs unless otherwise stated)

	PARTICULARS '	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
Sr. No.		31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
1	Revenue from operations	30,140.30	29,008.47	118,697.87
2	Net Profit for the period before tax (before exceptional items)	1,919.13	2,041.48	9,361.90
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	1,845.10	1,813.98	8,758.79
4	Net Profit for the period after tax from Continuing Operations	1,165.29	1,184.76	5,623.05
5	Net Profit for the period before tax from Discontinuing Operations	247.56	560.79	1,758.42
6	Net Profit for the period after tax from Discontinuing Operations	163.56	369.66	1,266.00
7	Net Profit after tax (including non- controlling interest)	1,328.85	1,554.42	6,889.05
8	Net Profit for the period/year (after taxes and non- controlling interest)	1,222.26	1,322.83	6,588.78
9	Total Comprehensive income for the period/year (after non-controlling interest)	1,791.70	1,490.20	4,853.96
10	Equity Share Capital (in ₹)	1,363.15	1,363.15	1,363.15
11	Earnings per share for continuing operation: (In ₹):			
	Basic & Diluted (in ₹)	1.55	1.40	7.8
	Face value per share (in ₹)	2.00	2.00	2.00
	Earnings per share for Discontinuing operation: (In ₹):			
	Basic & Diluted (in ₹)	0.24	0.54	1.80
	Face value per share (in ₹)	2.00	2.00	2.00
	Earnings per share for Continuing and Discontinuing operation: (In ₹):	A NAME OF	Belge Bast In	*
	Basic & Diluted (in ₹)	1.79	1.94	9.6
	Face value per share (in ₹)	2.00	2.00	2.0
	Key Standalone Financial Information	January James St.		
1	Revenue from Opérations	16,640.19	15,401.29	65,232.0
2	Profit Before Tax from Continuing operations	816.21	372.25	4,587.5
3	Profit Before Tax from Discontinuing operations	247.56	560.79	1,758.4
4	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period	1,171.14	791.47	2,759.3
Note				

Notes:

- These Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 and / or any Statutory Modifications and / or Re-enactment thereof.
- The above financial results have been duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the meeting held on May 18, 2019.
- The figures of the last quarters are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto March 31, 2019 and March 31, 2018 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2018 and the December 31, 2017, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.
- 4. The Company's Board of Directors in their meeting held on December 21, 2018 had approved the Merger of Lumax DK Auto Industries Limited, a wholly owned subsidiary (Transferor Company) with Lumax Auto Technologies Limited (Transferee Company) w.e.f. appointed date i.e. April 01, 2018. The above approval is subject to the approval of Jurisdictional Hon'ble Company Law Tribunal, respective shareholders and creditors and such other regulatory and statutory approval(s) as may be required. Pending such approvals no adjustments have been carried in respect of above.
- 5. The Company's Board of Directors in their meeting held on March 16, 2019 had decided to discontinue & dispose plant and machinery and relevant stock relating to the PCB Business to Lumax Industries Ltd on arm's length basis. Accordingly assets relating to PCB business has been considered as "Disposal Group" in accordance with Ind AS 105 i.e. "Non Current Assets Held for Sale & Discontinuing operations", while the actual sales of these assets have taken place in subsequent year, these assets are shown as "Assets held for Sale" in the financial statements. The previous year / period figures have also been re-stated.


The details of discontinued operation is as below:

The second secon		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
PARTICULARS		31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	
A. Total Income		3,190.60	4,151.08	17,160.97	
B. Total Expenses		2,943.04	3,590.29	15,402.55	
C. Profit Before Tax (A-B)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	247.56	560.79	1,758.42	
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The same of the sa			

- 6. During the current year, the Company had sub—divided its Equity Share Capital from ₹ 10 per Equity Share to ₹ 2 per Equity Share. Resulting to this, Equity Share Capital of the Company stood at ₹ 13,63,15,410 divided into 6,81,57,705 Equity Shares of ₹ 2 each as on March 31, 2019. The earnings per share of comparative period / year is reinstated accordingly.
- The Company's business activity falls within a single business segment i.e. manufacturing and trading of Automotive Components and therefore, segment reporting in terms of Ind-AS 108 on Segmental Reporting is not applicable.
- 8. Exceptional items in current year refers to impair and write off assets of one of the product line in respect of one of the subsidiary Company.
- 9. The registered office of the Company has been shifted from Pune, Maharashtra to New Delhi subsequent to year end.
- 10. The Board of Directors have recommended, subject to approval of shareholders, dividend @ 150% i.e ₹ 3 per share (March 31, 2018: ₹ 2 per share) on face value of ₹2 each for the year ended March 31, 2019.
- The above financial results are available on the Company's website www.lumaxautotech.com and also on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Gurugram Date : May 18, 2019 Anmol Jain Managing Director



विश्व कप में होगी कोहली की असल परीक्षा

नई दिल्ली, 19 मई (भाषा)।

विराट कोहली लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन से महान खिलाडियों की फेहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। लेकिन, इंग्लैंड में होने वाला विश्व कप भारतीय कप्तान के रूप में अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका होगा। आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टैस्ट शृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कोहली ऐसी टीम की अगुआई करेंगे जिसकी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं।

चौथे नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा? क्या केदार जाधव ठीक हैं? तीसरा तेज

गेंदबाज कौन? कुलदीप या चहले या फिर दोनों? विश्व कप में कोहली की काबिलियत बतौर बल्लेबाज से ज्यादा बतौर कप्तान परखी जाएगी। अगर टीम विश्व कप जीत जाती है तो वह अलग श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।

सलामी बल्लेबाज की भूमिका 🌗 इंग्लैंड में पिचें 'पैनकेंक' की तरह सपाट होने वाली हैं। ऐसे में रोहित शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत

कुछ और बडे

• विश्व कप में कोहली की काबिलियत बतौर बल्लेबाज से ज्यादा बतौर कप्तान परखी जाएगी अगर टीम विश्व कप जीत जाती है तो वह अलग श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।

महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम विश्व कप अभियान उनके असंख्य प्रशंसकों के लिए भावनात्मक होगा।

शिखर धवन भी हैं जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय आगाज के बाद से आइसीसी प्रतियोगिताओं में कभी भी खराब प्रदर्शन नहीं किया है। वह भी इस रेकार्ड को बरकरार रखना चाहेंगे।

चौथे नंबर की माथापच्ची शीर्ष तीन में रोहित, कोहली और शिखर 35वें से 50वें ओवर के के बेहतर प्रदर्शन से भारत हमेशा लाभान्वित होता आया है। परेशानियां इसके बाद से शुरू होती हैं। चौथे स्थान की दौर में अंबाती रायुडू के असफल होने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऋषभ पंत को भी टीम में जगह नहीं मिल सकी है। उनकी जगह दिनेश कार्तिक के अनुभव को तरजीह दी गई। विजय शंकर या विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल के इस स्थान पर खेलने की उम्मीद है। लेकिन जो भी खेलेगा, उसे जिम्मेदारी से खेलना होगा। उम्मीद है। डेथ ओवरों में छक्के मध्यक्रम का जड़ने की उनकी क्षमता खेल का

महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम विश्व कप अभियान उनके असंख्य प्रशंसकों के लिए भावनात्मक होगा। 70 के स्ट्राइक रेट और बीच लगातार अंतराल पर तेजी से रन जुटाने की काबिलियत से प्रतिद्वंद्वी टीमों की दिलचस्पी उनमें बनी रहेगी। छठे नंबर पर केदार जा। धाटा होंगों। नंबर हार्दिक पंड्या की बहुमुखी प्रतिभा के टूर्नामेंट के दौरान अच्छे इस्तेमाल की

गेंदबाजों की परीक्षा टीम प्रबंधन ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल पर काफी भरोसा जताया है।

उन्होंने भी अच्छी सफलता हासिल की है। भारत में पिछली शृंखला खेलने आई आस्ट्रेलियाई टीम हालांकि इन दोनों की गेंदबाजी को समझने में सफल रही। कुलदीप की

आइपीएल में फॉर्म अच्छी नहीं रही। विश्व कप टीम में शामिल भारतीय खिलाडियों से वह एकमात्र ऐसे क्रिकेटर थे जो आइपीएल में अंतिम एकादश से बाहर हुए।

तेज आक्रमण शानदार जसप्रीत बुमराह टीम में मौजुद हैं जो आने वाले वर्षों में भारत के महानतम मैच विजेताओं में शुमार होंगे।

मोहम्मद शमी की स्विंग अप-फ्रांट और बुमराह की डेथ ओवर में यार्कर ऐसा जानदार मिश्रण तैयार करती है जो विपक्षी टीमों के लिए मारक साबित होगा।

> नौ लीग मैचों में से छह में जीत हासिल करना और सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के मद्देनजर यह सही साबित हो सकता है।

विश्व कप डायरी



आइसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह गेंदबाज मोंटी पनेसर की यह तस्वीर जारी की है। पनेसर इसमें विश्व कप ट्रॉफी के साथ सेल्फी ले रहे हैं।

फिट घोषित हुए केदार जाधव

नई दिल्ली, 18 मई (भाषा)।

मई से इंग्लैंड में होने वाले आगामी सूत्र ने कहा कि केदार की चोट इतनी वनडे विश्व कप के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। हाल में समाप्त हुई आइपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और

किंग्स इलेवन पंजाब के बीच पांच मई को हुए मैच के दौरान जाधव के बांए हरफनमौला केदार जाधव को 30 कंधे में चोट लग गई थी। टीम के एक गंभीर नहीं थी और वह अब पूरी तरह से उबर चुके हैं। टीम के लिए चुने गए सभी 15 खिलाडी ब्रिटेन जा रहे हैं।

सेमी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई वेस्ट इंडीज टीम

यादें - 1987

परिदृश्य को बदल सकती है।

इंग्लैंड को हराकर आस्ट्रेलिया ने जीता खिताब

विश्व क्रिकेट में बढ़ने लगा आस्ट्रेलिया का दबदबा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 18 मई।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम के ऐतिहासिक विश्व कप जीत के बाद 1987 में इसकी अगुआई भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से सौंपी गई। 1983 विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन ने उसे इसकी मेजबानी का प्रबल दावेदार बनाया। अब तक भारतीय प्रशंसकों का जोश उफान पर पहुंच चुका था। इस वैश्विक टुर्नामेंट में मैचों के प्रारूप तो वही रहे लेकिन इसके ओवर 60 से घटाकर 50 कर दिए गए। साथ ही आइसीसी एक और फैसले ने टूर्नामेंट की साख बढ़ाने में मदद की। 1987 विश्व कप से दो देशों के बीच मुकाबले में तीसरे देश का अंपयार रखा जाने लगा।

्रगुप ए में भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिंबाब्वे की टीमें थीं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को रखा गया था। लीग मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। उसने रन रेट के आधार पर ग्रुप में शीर्ष पर जगह बनाई। ग्रुप बी से पाकिस्तान की टीम ने उम्दा खेल दिखाया। उसने भी अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंग्लैंड की टीम



भार धोनी

पहली बार वेस्ट इंडीज हुआ बाहर

विश्व कप इतिहास की सबसे दमदार टीम वेस्ट इंडीज इस विश्व कप में सेमी फाइल तक भी नहीं पहुंच पाई। लीग के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ कैरेबियाई टीम को दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने श्रीलंका को 191 रन से हराया। हालांकि मेजबान पाकिस्तान ने अगले मैच में उसे एक विकेट से शिकस्त दी। छह मैच में तीन जीत और तीन हार से तालिका में वह तीसरे नंबर पर रहा।

सेमी फाइनल मुकाबले पहला सेमी फाइनल मुकाबला आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया। लाहौर में खेला गया यह मैच काफी रोमांचक रहा। आस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए आठ विकेट पर 267 रन बनाए। इमरान खान ने इस दौरान तीन विकेट चटकाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 38 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद जावेद मियांदाद और इमरान ने पारी संभालने

लौटते ही पारी लड़खड़ा गई। मियांदाद ने 70 जबिक इमरान ने 58 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान की पुरी टीम 249 पर ढेर हो गई।

दूसरे सेमी फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ। मुंबई की पिच पर ग्राहम गूच और माइक गैटिंग के स्वीप शॉट दर्शनीय थे। गुच ने 115 और गैटिंग ने 56 रन की लाजवाब पारी खेली। इंग्लैंड ने 50 ओवर में छह विकेट पर 254 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 219 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अजहरूदीन ने सर्वाधिक 64 रन बनाए।

इंग्लैंड-आस्टेलिया में खिताबी भिडंत फाइनल में आस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से था। इस मुकाबले के बाद से विश्व क्रिकेट में आस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा शुरू हो गया था। आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 50 ओवर में 253 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम माइक गैटिंग के सहारे जीत की ENGLAND & WALES ओर बढ़ रही थी। लेकिन, उनके

और एलेन लैंब के आउट होते ही पारी लड़खड़ा गई। आस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को सात रन से जीतकर विश्व विजेता

बनने का गौरव प्राप्त किया।

प्रपत्र जी में संशोधन अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण [दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए

दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अनुसार प्रकाशित] **दिगम्बर बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड** के संदर्भ में संभावित प्रस्ताव आवेदक(कों) से ॲभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण के लिए फाइनांसियल एक्स्प्रैस तथा जनसत्ता (दिल्ली एवं एनसीआर दोनों संस्करणों में) 23 **मार्च**.

2019 को प्रकाशित संशोधित प्रपत्र जी के संदर्भ में निम्न संशोधनों पर ध्यान दें। 10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि 3 जून, 2019 भावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि 13 जून, 2019 अस्थाई सूची के प्रति आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून, 2019 संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि गावित प्रस्ताव आवेदकों को सुचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध जारी <mark>1</mark>8 जून, 2019 प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि स्वीकृति के लिए निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि

दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि 26 मई, 2019 है। पुनः, दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार सीओसी की स्वीकृति पर कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (''सीआईआरपी'') की पूर्णता के लिये नब्बे दिनों की अवधि के विस्तार के लिये निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल किया जायेंगा। अतः वर्णित तिथि निर्णायक प्राधिकरण द्वारा सीआईआरपी के विस्तार की स्वीकृति

अधिक तथा अद्यतन जानकारी के लिये www.adellandmarks.com देखें।

रैशनल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-2017/10057 आईबीबीआई में पंजी.पता तथा पत्राचार के लिये परियोजना विशेष पता सुमेधा मैनेजमेन्ट सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड, सी-703, मराठों ईन्नोवा, ऑफ गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल

(वेस्ट), मुम्बई सिटी, महाराष्ट्र, 400013। आईबीबीआई में पंजीकत ईमेल आईडी: udayraj patwardhan@sumedhamanagement.com पत्राचार के लिये परियोजना विशेष ईमेल आईडी-dbpl@sumedhamanagement.com

QUARTER ENDED

31.03.2019

(Audited)

30,140.30

1,919.13

1,845.10

1,165.29

247.56

163.56

1,328.85

1,222.26

1,791.70

1,363.15

1.55

2.00

0.24

1.79

16,640.19

816.21

247.56

1,171.14

LUMAX

PARTICULARS

Revenue from operations

Equity Share Capital (in ₹)

Face value per share (in ₹)

Face value per share (in ₹)

Face value per share (in ₹)

Revenue from Operations

Key Standalone Financial Information

Profit Before Tax from Continuing operations

Profit Before Tax from Discontinuing operations

Total Comprehensive Income / (Loss) for the period

Basic & Diluted (in ₹)

Basic & Diluted (in ₹)

Basic & Diluted (in ₹)

Net Profit for the period before tax (before exceptional items)

Net Profit for the period before tax (after exceptional items)

Net Profit for the period after tax from Continuing Operations

Net Profit for the period before tax from Discontinuing Operations

Net Profit for the period/year (after taxes and non- controlling interest)

Earnings per share for Continuing and Discontinuing operation: (In ₹)

Total Comprehensive income for the period/year (after non-controlling interest)

Net Profit for the period after tax from Discontinuing Operations

Net Profit after tax (including non-controlling interest)

Earnings per share for continuing operation: (In ₹):

Earnings per share for Discontinuing operation: (In ₹)

Lumax Auto Technologies Limited

Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046; Website: www.lumaxautotech.com; Tel: +91 11 49857832 Email: shares@lumaxmail.com, CIN: L31909DL1981PLC349793

STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2019**



YEAR ENDED

31.03.2019

(Audited)

118,697.87

9,361.90

8,758.79

5,623.05

1,758.42

1,266.00

6,889.05

6,588.78

4,853.96

1,363.15

7.81

2.00

1.86

2.00

9.67

2.00

65,232.03

4,587.54

1,758.42

2,759.34

(₹ In Lacs unless otherwise stated)

31.03.2018

(Audited)

29,008.47

2,041.48

1,813.98

1,184.76

560.79

369.66

1,554.42

1,322.83

1,490.20

1,363.15

1.40

2.00

2.00

2.00

15,401.29

372.25

560.79

791.47

जद (सेकु) के विरष्ठ नेता ने कर्नाटक विस भंग किए जाने का दिया सुझाव

बंगलुरु, 18 मई (भाषा)।

सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन में मतभेदों और सिद्धारमैया को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बढ़ती मांगों के बीच जद (सेक्) के वरिष्ठ नेता बसवराज होरात्ती ने विधानसभा भंग किए जाने का शनिवार को सुझाव दिया। उनके बयान के कारण मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को गठबंधन के नेताओं को सार्वजनिक रूप से विरोधाभासी और विवादास्पद बयान देने से बचने का अनुरोध करना पडा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में गैर-भाजपा सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में गठबंधन नेताओं के इस तरह के बयानों से ये प्रयास धृमिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र में नई सरकार के गठन के करीब हैं। कमारस्वामी ने टवीट किया कि ऐसे समय में, जब केंद्र में गैर-भाजपा सरकार बनाए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, तो गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस-जद (सेक) के नेताओं के विरोधाभासी बयानों से इस तरह के प्रयासों को झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा दोनों पार्टियों के नेताओं से विनम्र अनुरोध है कि वे सार्वजनिक रूप से विरोधाभासी-विवादित बयान देने से बचें।

• मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में गैर-भाजपा सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में गठबंधन नेताओं के इस तरह के बयानों से ये प्रयास धूमिल हो सकते हैं।

होरात्ती ने एक मीडिया संगठन में यह टिप्पणी की और बाद में वह अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि वह आम जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि यह कहने की क्या जरूरत है कि सिद्धारमैया को अब मख्यमंत्री बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि लोगों में संशय पैदा किया जा रहा है और भाजपा गठबंधन नेताओं के बीच मतभेदों का फायदा उठाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, यह ठीक नहीं है, दोनों पार्टियों ने सरकार का गठन किया था और एक साल पुरा हो गया है। अब यह कहना कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, एक स्पष्ट निर्णय पर आओ- सरकार चलाओ या इसे छोड़ दो, इसे भंग करो और जाओ। उन्होंने कहा कि मैं निराश हुं, इसलिए यह कह रहा हूं।

खुला रखें मुसलिम महिलाएं: माकपा नेता

कन्नूर जिले में माकपा के सचिव जयराजन ने कन्तूर संसदीय क्षेत्र के पीलाथरा में चुनाव प्रचार करते हुए शुक्रवार को कहा कि बुर्का या हिजाब पहनी महिलाओं को मतदान केंद्र में चेहरा खुला रखना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीतला ने कहा कि वाम नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना होनी चाहिए। यह हर किसी की स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद की पोशाक पहने। माकपा नेताओं ने मानसिक संतुलन खो दिया है क्योंकि उन्हें चुनाव में हार सामने दिखाई दे रही है। इस बीच, राज्य के मख्य निर्वाचन अधिकारी टीका राम मीणा ने कहा कि जिन मतदाताओं ने चेहरा ढंका हुआ होगा उन्हें संबंधित

यहां फर्जी मतदान के आरोपों के कारण रविवार को एक मतदान केंद्र पर फिर से मतदान होने वाले हैं। जयराजन ने कहा कि जो कोई भी मतदान करने आए उसे कतार में खड़ा होने से पहले चेहरा खुला रखना होगा। यह सीसीटीवी कैमरा और वेब कैमरा को मतदाता की तस्वीर लेने के लिए जरूरी है।

मतदान केंद्र में चेहरा

कन्नूर/तिरुवनंतपुरम, 18 मई (भाषा)।

अधिकारी के समक्ष चेहरा खोलना होगा।

बघेल सहित 12 कांग्रेसियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

अलीराजपुर (मप्र), 18 मई (भाषा)।

शिमला, 18 मई (भाषा)।

लोकसभा चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त होने बाद भी जनसंपर्क करने के आरोप में मध्य प्रदेश के मंत्री स्रेंद्र हनी बघेल और रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया सहित एक दर्जन से अधिक कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

निरीक्षक दिनेश सोलंकी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र हनी बघेल, रतलाम-झाबुआ लोकसभा

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करते समय पंजाब के पर्यटक की मौत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार को पैराग्लाइडिंग करते वक्त हुए हादसे में

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में पैराग्लाइडिंग पायलट रणवीर सिह घायल हो गया,

जो यहां के बरूआ गांव का रहने वाला है। कुछू की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री

ने बताया कि मृतक की पहचान अमनदीप सिंह के रूप में की गई है, जो पंजाब के

मोहाली जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया, 'अमनदीप अपनी दोस्त के साथ कुल्लू

जिले में सोलांग नुल्लाह घूमने आया था। अमनदीप और रणवीर को मिशन अस्पताल ले

जाया गया, जहां अमनदीप ने दम तोड़ दिया। रणवीर का इलाज चल रहा है।'

पंजाब के एक पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया, अलीराजपुर के विधायक मुकेश पटेल, अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, अलीराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष सेना महेश पटेल और अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने संबद्ध धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि जिला अलीराजपुर कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक वीडियो सीडी समेत जांच प्रतिवेदन किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 17 मई की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बावजूद

मंत्री ने अलीराजपुर की सीमा में प्रवेश किया और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर नगर के कुछ इलाकों में बिना अनुमति के जनसंपर्क किया, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में जिला भाजपा अध्यक्ष किशोर शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री व उनके सांसद उम्मीदवार सत्ता के मद में चूर होकर वैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हमारी ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि भाजपा अपनी संभावित हार को देखकर बौखला गई है और शिकायतें करा रही है।

इंडिगो के सीईओ ने कहा, मुद्दों को सुलझाने का रिकार्ड बेहतर

नई दिल्ली, 18 मई (भाषा)

इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने शनिवार को कहा कि एअरलाइन के प्रवर्तकों कंपनी का इस तरह के मुद्दों को सुलझाने का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। दत्ता गंगवाल और भाटिया के बीच मतभेद की खबरें गुरुवार को मीडिया में आने के बाद दत्ता की ओर से यह पहला वक्तव्य जारी किया गया है।

These Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 and / or any Statutory Modifications and / or Re-enactment thereof.

The above financial results have been duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the meeting held

The figures of the last quarters are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto March 31, 2019 and March 31, 2018 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2018 and the December 31, 2017, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

The Company's Board of Directors in their meeting held on December 21, 2018 had approved the Merger of Lumax DK Auto Industries Limited, a wholly owned subsidiary (Transferor Company) with Lumax Auto Technologies Limited (Transferee Company) w.e.f. appointed date i.e. April 01, 2018. The above approval is subject to the approval of Jurisdictional Hon'ble Company Law Tribunal, respective shareholders and creditors and such other regulatory and statutory approval(s) as may be required. Pending such approvals no adjustments have been carried in respect of above.

The Company's Board of Directors in their meeting held on March 16, 2019 had decided to discontinue & dispose plant and machinery and relevant stock relating to the PCB Business to Lumax Industries Ltd on arm's length basis. Accordingly assets relating to PCB business has been considered as "Disposal Group" in accordance with Ind AS 105 i.e. "Non Current Assets Held for Sale & Discontinuing operations", while the actual sales of these assets have taken place in subsequent year, these assets are shown as "Assets held for Sale" in the financial statements. The previous year / period figures have also been re-stated

The details of discontinued operation is as below:

(www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

	QUARTER	YEAR ENDED				
PARTICULARS	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)			
A. Total Income	3,190.60	4,151.08	17,160.97			
B. Total Expenses	2,943.04	3,590.29	15,402.55			
C. Profit Before Tax (A-B)	247.56	560.79	1,758.42			
6. During the current year, the Company had sub—divided its Equity Share Capital from ₹ 10 per Equity Share to ₹ 2 per Equity Share. Resulting						

The earnings per share of comparative period / year is reinstated accordingly. The Company's business activity falls within a single business segment i.e. manufacturing and trading of Automotive Components and

to this, Equity Share Capital of the Company stood at ₹13,63,15,410 divided into 6,81,57,705 Equity Shares of ₹2 each as on March 31, 2019.

Exceptional items in current year refers to impair and write off assets of one of the product line in respect of one of the subsidiary Company.

The registered office of the Company has been shifted from Pune, Maharashtra to New Delhi subsequent to year end.

 The Board of Directors have recommended, subject to approval of shareholders, dividend @ 150% i.e ₹ 3 per share (March 31, 2018: ₹ 2 per share) on face value of ₹ 2 each for the year ended March 31, 2019. 11. The above financial results are available on the Company's website www.lumaxautotech.com and also on the websites of NSE

Anmol Jain

Managing Director

therefore, segment reporting in terms of Ind-AS 108 on Segmental Reporting is not applicable.

Place: Gurugram Date: May 18, 2019 For and on behalf of the Board of Directors

नई दिल्ली

राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, 'यदि मौजूदा मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका तो आपको (मीडिया को) इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इस संबंध में अटकलबाजी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा।' इंडिगो एअरलाइन के प्रवर्तकों